

केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद/ KENDRIYA VIDYALAYA MORADABA

प्रवेश 2023-24/ ADMISSION 2023-24

SESSION 2023-24, CLASS 1

कक्षा I में प्रवेश के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के आवश्यकता होगी /

THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE REQUIRED FOR THE ADMISSION IN CLASS 1

1. ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म / ONLINE REGISTRATION FORM
2. बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र प्रवेश दिशानिर्देशिका के अनुसार / BIRTH CERTIFICATE AS PER KVS ADMISSION GUIDE LINES
3. बच्चे का जाति प्रमाण पत्र / CASTE CERTIFICATE OF CHILD (SC/ST/OBC IF APPLICABLE)
4. पिता/माता का सेवा प्रमाण पत्र बच्चे के सम्बन्ध के साथ (यदि पिता/माता सरकारी नौकरी में है) / PARENT'S SERVICE CERTIFICATE CUM RELATION WITH THE CHILD (FOR GOVT. SERVANT)
5. पिछले 7 वर्षों में पिता/माता के स्थानांतरण का प्रमाण पत्र (यदि पिता/माता सरकारी नौकरी में है) / CERTIFICATE OF NO. OF TRANSFERS IN LAST SEVEN YEARS IN PROPER FORMAT (FOR GOVT. SERVANT)
6. पिता/माता का आय प्रमाणपत्र यदि (बी. पी. एल. / इ. डब्ल्यू. एस.) / INCOME CERTIFICATE UP TO 1 LAKH. (BPL / EWS)
7. पिता/माता का वेतन स्लिप / PARENT'S SALARY SLIP (FOR GOVT. SERVANT))
9. स्कूल से घर दूरी प्रमाण पत्र जिनका एडमिशन शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत हो रहा है / DISTANCE FROM HOME TO SCHOOL CERTIFICATE (RTE ADMISSIONS ONLY)
10. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि योग्य है) / DISABILITY CERTIFICATE FOR DA CANDIDATE ADMISSION (IF APPLICABLE)
11. खून वर्ग का प्रमाणपत्र / BLOOD GROUP CERTIFICATE
12. स्थायी एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र / PERMANENT AND LOCAL ADDRESS PROOF.
13. बच्चे के दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो / STUDENT'S TWO PASSPORT COLOUR RECENT PHOTOS
14. 100 रुपये का एकल कन्या का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में / AFFIDAVIT ON RS. 100 STAMP PAPER ISSUED BY FIRST CLASS MAGISTRATE IN PRESCRIBED FORMATE (FOR SINGLE GIRL CHILD ADMISSION ONLY)
15. बच्चे का आधार / AADHAR OF CHILD

NOTE -1 अधिक जानकारी एवं सर्टिफिकेट फॉर्म के लिए आप विद्यालय वेबसाइट no1moradabad.kvs.ac.in पर देखें / for more and format forms you may visit on Vidyalaya website no1moradabad.kvs.ac.in

2. प्रवेश के समय सभी दस्तावेजों कि मूल एवं छाया प्रति होनी चाहिए एवं सभी छाया प्रति अभिभावक द्वारा सत्यापित होनी चाहिए / PARENTS MUST BRING ALL THE DOCUMENTS IN ORIGINAL AS WELL AS IN XEROX FORM AND XEROX MUST BE SELF ATTESTED BY PARENT.
3. प्रवेश के लिए आने वाले सभी अभिभावकों से निवदन है कि कोरोना -19 की गाइडलाइन्स का पूर्णता पालन करे एवं विद्यालय परिसर में केवल एक व्यक्ति (माता / पिता) को आने के अनुमति दी जायगी / It is mandatory for the parents to follow corona-19 guidelines in school premises and only one parent without children will be allowed for admission procedure.

सेवा प्रमाण पत्र / SERVICE CERTIFICATE

राज्य सरकार / State Govt.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान / श्रीमती पदनाम
.....कार्यालय / मंत्रायल..... में स्थाई
कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। तथा सेवा अस्थान्तरणीय है / पूर्ण राज्य में में कही भी स्थान्तरणीय
है।

इनकी सेवा पुस्तिका के अनुसार मास्टर /कुमारीजन्म तिथि
..... इनका (की) पुत्र / पुत्री.....है।

Certified that Shri/Smt. Designation
..... is working in the Office / Ministry of
.....

and he/she is a regular /permanent employee of this department and
his / her services are non-transferable / transferable anywhere in State.
According to his/ her service record in office Master/Miss.
..... Date of birth (DOB) Is His/ her child.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of head of the Office (With Name,
Designation and Office Stamp)

स्थान /Place.....

दिनांक /Date.....

कार्यालय का पूर्ण पता औरदूरभाष संख्या / Complete address and Telephone No. of office
.....

सेवा प्रमाण पत्र / SERVICE CERTIFICATE

केंद्रीय सरकार / CENTRAL GOVT.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान / श्रीमती पदनाम
..... कार्यालय / मंत्रालय में
स्थाई / नियमित कर्मचारी है तथा उनकी सेवा अस्थान्तरणीय है/ पूर्ण भारत में कही भी
स्थानांतरणीय है कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। वे रक्षा सेवा /केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल / सीमा
सुरक्षा बल / एन.एस.जी. /एस.पी.जी / सी.आई.एस.एफ. / केंद्र सरकार स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक
क्षेत्र के उपक्रम , जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार से वित्त पोषित हैं के नियमित कर्मचारी
है तथा उनकी सेवा अस्थान्तरणीय है/ पूर्ण भारत में कही भी स्थानांतरणीय है
इनकी सेवा पुस्तिका के अनुसार मास्टर /कुमारीजन्म तिथि
..... इनका (की) पुत्र / पुत्री.....है।

Certified that Shri/Smt.Designation
.....is working in the Office / Ministry of.....
He/She is a permanent employee of Defence Service / CRPF / BSF / NSG /
SPG / CISF / Central Govt. / Autonomous Body / Public Sector Undertaking
fully financed / partially finance by the Central Govt. and his / her services are
non-transferable / transferable anywhere in India.

According to his/ her service record in office Master/Miss.
..... Date of birth (DOB) Is His/ her child.

कार्यालय अध्यक्ष केहस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान /Place.....

दिनांक /Date.....

कार्यालय का पूर्ण पता औरदूरभाष संख्या / Complete address and Telephone No. of office
.....

स्थानांतरण संख्या प्रमाण पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

में नाम (रैंक / पदनाम) (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (31/3/2022) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे (अंकों व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

I (Name) (rank/designation) of (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.2022) I have been transferred Times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under:-

स्थान से / Office / Unit and Place	अवधि दिनांक से / Date of joining the Office/Unit	अवधि दिनांक तक / Date of release from the Office/Unit	ठहरने की अवधि / Period of Stay (in months)	स्थान तक / Transferred Office / Unit and Place	दूरी (किमी)/ Distance between the two Office (in km)	स्थानांतरण आदेश संख्या / Transfer Order No.

मैं जनता / जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अयोग्य हो जायेगा।

I know that if the above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya.

स्थान/ Place
दिनांक/ Date

माता /पिता के हस्ताक्षर
Signature of Parent

प्रतिहस्ताक्षर / Countersignature

मैं, नाम (रैंक / पदनाम) (कार्यालय), एतद
द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विषय विवरण को कार्यालय-आलेखों से जांच लिया गया है व
सही पाया गया है।

I, (Name) (rank/designation) of
..... (unit/ department) hereby certify that the particulars given in above have been
authenticated by the records held in the office and found correct.

स्थान/ Place

दिनांक/ Date

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Competent Authority
(with Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या
Complete Address and Telephone No. of Office

टिप्पणी / Note :

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।

1. Minimum period of posting / stay at a place should be minimum six months.

SINGLE GIRL CHILD

Rs. 100/- Stamp paper (Notary) Affidavit

I.....aged.....years, Indian
Inhabitant occupationResident of
..... is mother/father of
..... Date of Birth..... Submitting
my undertaking to the Head of the Institution in Class I Vide KVS Admission Guidelines
2020)

- 1) I hereby declare that Miss..... is the only girl
child in my family (with no male/female sibling). I understand that it shall be my
sole responsibility to inform you about any change in status of single girl child in
the family immediately, if and when it occurs.
- 2) I am also aware that in case it is detected at any time that the affidavit sworn by
me is false, appropriate action will be taken by the school authorities and KVS
against me.

Signature of father

Signature of mother

Residential address with
Contact number:

Solemnly affirmed at
This.....day of.....20.....

BEFORE ME

Explained and Identified by me,

Advocate

DIED IN HARNESS CERTIFICATE

पमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमारी..... स्वर्गीय श्री /
श्रीमती के पुत्र /पुत्री हैं जो
..... (कार्यालय / विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे / थीं और उनका
देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांकको हो गया था।

Certified that Master/Miss Is the
son.daughter of Late Sr./Smt. Who was
regular employee of (Office/Department) and
he/she died in harness (while in service) on(date).

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature oh Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

कार्यालय का पूर्ण पता औरदूरभाष संख्या/ Complete address and Telephone No. of office
.....

Self-Declaration for distance between school and residence
निवास स्थान से स्कूल की दूरी के सम्बन्ध में स्वयं की घोषणा

I/मैं father/mother of / के माता/ पिता
..... bearing Application Submission Code/
पंजीकरण फॉर्म संख्या.....declare that the radial distance
between school and our residence is/ शपथ पूर्ण घोषणा करता हु कि मेरे निवास स्थान से
स्कूल की दूरी.....km/ किमी. Date/दिनांक:.....

Signature of the parent

अभिभावक के हस्ताक्षर

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST

This is to certify that Shri*/Shrimati/Kumari _____ Son/Daughter of
_____ Village/Town _____ /District/Division*
_____ of the _____ State/Union Territory belongs to the
_____ Caste*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Tribe under :

- *The Constitution Scheduled Castes Order, 1950.
- *The Constitution Scheduled Tribes Order, 1950.
- *The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) (Part C States) Order, 1951;
- *The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) Order, 1951;
- As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.]
- **The Constitution (Jammu and Kashmir)* Scheduled Castes Orders, 1956.
- **The Constitution (Andaman and Nicobar Islands)* Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.
- *The Constitution (Dadra and Nagar Haveli)* Scheduled Castes Order, 1962.
- *The Constitution (Dadra and Nagar Haveli)* Scheduled Tribes Order, 1962.
- *The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
- *The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.
- *The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.
- *The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.
- *The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
- *The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.
- *The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.
- *The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.
- *The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990.
- *The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.
- *The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.
- *The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.
- *The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.
- **The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.

2. **Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.**

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Shrimati* _____ father/mother* _____ of Shri/Shrimati/Kumari _____ of Village/Town* _____ in /District/Division* _____ of the State/Union Territory* _____ who belongs to the _____ Caste*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* _____ issued by the _____ dated _____.

_____ Shri/Shrimati/Kumari* and /or* his/her* family ordinarily reside(s) in Village/Town* _____ District/Division* _____ of the State/Union Territory * _____ of _____.

Place _____
Date _____

Signature _____
Designation _____
(with seal of Office)

State/Union Territory _____

- 1. Please delete the words, which are not applicable.
- 2. Please quote specific Presidential Order
- 3. Delete the Paragraph, which is not applicable

Note: - The term 'ordinarily reside(s)' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

This certificate is to be issued to issue caste certificate.

Signature: Magistrate, Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Jail Officer-in-Charge/Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner
Place: District/Union Territory/Presidency/Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate
Signature: _____
Name: _____
Designation: _____
Place: _____
Date: _____
Signature: _____
Designation: _____
Place: _____
Date: _____

OBC-NCL Certificate Format

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCL) APPLYING FOR
ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs), UNDER THE GOVERNMENT OF
INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kum* _____ Son/
Daughter* of Shri/Smt.* _____ of Village/
Town* _____ District/Division* _____
in the State/Union Territory _____ belongs to the
_____ community that is recognized as a backward
class under Government of India**, Ministry of Social Justice and Empowerment's
Resolution No. _____ dated _____ ***

Shri/Smt./Kum. _____ and/or _____
his/her family ordinarily reside(s) in the _____
District/Division of the _____ State/Union Territory. This is
also to certify that he/she does NOT belong to the persons/sections (Creamy Layer)
mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of
Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93- Estt. (SCT) dated 08/09/93 which is
modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004, further modified
vide OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14/10/2008, again further modified vide OM
No.36036/2/2013-Estt (Res) dtd. 30/05/2014.

District Magistrate /
Deputy Commissioner /
Any other Competent Authority

Dated:

Seal

* Please delete the word(s) which are not applicable.

** As listed in the Annexure (for FORM-OBC-NCL)

*** The authority issuing the certificate needs to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

NOTE:

- (a) The term 'Ordinarily resides' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
- (b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
- District Magistrate/ Additional Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
 - Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
 - Revenue Officer not below the rank of Tehsildar' and
 - Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides